

CORDS CABLE INDUSTRIES LT

REGD. OFFICE: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area Phase-III,

Old Ishwar Nagar, New Delhi - 110020

Tel: +91-11-40551200; Fax: +91-11-20887232

Website: www.cordscable.com; Email: ccil@cordscable.com

CIN: L74999DL1991PLC046092

Date: 25.07.2025

Listing Department (Compliance Cell), National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai- 400051

Scrip Code: CORDSCABLE

Listing Department (Compliance Cell), Bombay Stock Exchange Ltd.

Floor 25, PJ Towers,

Dalal Street,

Mumbai- 400001

Scrip Code: 532941

Sub: Newspaper Publication regarding Intimation of Board Meeting

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the newspapers advertisements published in the Financial Express and Jansatta dated July 25th, 2025 regarding intimation of 215th Board Meeting of the Company to consider and approve, the Un-audited financial results for the First Quarter / 3 months ended on June 30, 2025 and other items as per agenda.

Kindly take the same on your record and acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours Faithfully,

FOR CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED

able Industries Ltd.

Garima Ranmpany Secretary

(Company Secretary)

GARIM Digitally signed by GARIMA PANT

A PANT Date: 2025.07.25

फॉर्म सं. युआरसी-2

के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकृत करने के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]

1.एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, इसके पंद्रह दिन बाद लेकिन तीस दिनों की समाप्ति से पहले, कंपनी रजिस्ट्रार, रा.रा,क्षेत्र दिल्ली, 11/205, गीता कॉलोनी, गीता कॉलोनी, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, 110031 को एक आवेदन करने का प्रस्ताव है कि ट्रैवल न ट्रिस्ट वेकेशंस एलएलपी जिसका एलएलपीआईएन : एएजे-7039 है, को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय कके भाग कके तहत उसी नाम यानी ट्रैवल न ट्रिस्ट वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से ट्रैवल न ट्रिस्ट वेकेशंस एलएलपी के क्षेत्र में ट्रैवल एंड टूर से संबंधित सेवाओं का व्यवसाय अपने सभी रूपों और परिप्रेक्ष्यों में करना, और भारत और/या भारत के बाहर इससे जुड़े, लिंक किए गए या संबंधित सभी गतिविधियों को करना

3.प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफएसोसिएशन की एक प्रति का निरीक्षण कार्यालय 11/205, गीता कॉलोनी, गीता कॉलोनी, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, 110031 पर किया जा सकता है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार को केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉपोरेंट मामले संस्थान (आईआईसीए), 11/205, गीता कॉलोनी, गीता कॉलोनी, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, 110031 पर लिखित रूप में अपनी आपत्ति भेज सकता है, जिसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 11/205, गीता कॉलोनी, गीता कॉलोनी, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, 110031 पर भी भेजनी होगी।

हस्ता/-नीतू कक्कड़ शिवम कक्कड डीआईएन-07767833 डीआईएन-07767833 नामित भागीदार नामित भागीदार दिनांक:- 25.07.2025

ट्रैवल न ट्रिस्ट वेकेशंस एलएलपी के लिए

"प्रपन्न सं. आईएनसी—26" यनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निममन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में गिर डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U15490DL2016PTC308034)

जेसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. ६, वेगास मॉल.

सेक्टर 14, द्वारका, यूनिट नं. 594 द्वारका रोक्टर-6,

याचिकाकता वाम जनता को यह सूचनी दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार (प्रादेशिक मिदेशक उत्तरी क्षेत्र.) के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन मायेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" "महाराष्ट्र राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 06 जून, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संवर्भ में पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन में संशोधन की

त्र्यमी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित होता है तो वह थवित या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर मसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत जे कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हेत का प्रकार और चसके विरोध का कारण उत्तिलेखित के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक उत्तरी त्र, को इस सुबना के प्रकाशन की तारीख से 14 देनों के भीतर बी-2 विंग, हितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत ढाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी मेजेगा।

डीआईएन : 08519101 पता : पलैट नं. 545, संस्कृति अपार्टमेंट, सैक्टर-19वी, द्वारका, दिल्ली-110075 YES BANK

पंजीकृत और कॉपोरेंट कार्यालय: यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताकृज ईस्ट, मुंबई- 400055, वेबसाइटः www.yesbank.in, ई-मेल : communications@yesbank.in, सीआईएन L65190MH2003PLC143249,

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना का प्रकाशन . एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) को जिन्होंने बैंक से उनके द्वारा ग्रहण किए गये मूलधन तथा ऋण सुविधा के ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है तथा

जिनके ऋण खाते गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं, को सुचना दी जाती है। उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित

अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के तहत उनके अन्तिम ज्ञात पर सुचनाएं जारी की गयी थीं और उन्हें इस सार्वजनिक सुचना के माध्यम से सुचित किया जाता है।

	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
कर्जदारों, सह-कर्जदारों, बंधककर्ताओं के नाम	प्रतिभूति आस्ति का विवरण	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1. शिव शक्ति ट्रैक्टर्स अपने साझेदारों पताः -1 अंबाला रोड, जगाधरी, यमुनानगर जगाधरी हरियाणा 135003. (कर्जदार) 2. राम सरन पुत्र निरंजन पताः - वांट नंबर 12 बड़ी माजरा (126) यमुनानगर हरियाणा 135001 इसके अलावा, पताः - मकान नंबर 426 सुधी खेड़ा यमुना नगर, जगाधरी हरियाणा 135003. (सह-कर्जदार, जमानती एवं बंधककर्ता) 3. शिंश भूषण सी/ओ राम गोपाल पताः - सुधाल खेड़ा 426, यमुनानगर हरियाणा 135003 इसके अलावाः - वार्ड नंबर 12 बड़ी माजरा, बड़ी माजरा, यमुनानगर हरियाणा 135001. (सह-कर्जदार, जमानती एवं बंधककर्ता) के माध्यम से। खाता संख्या 017084600001233, 969LA43233260001 तथा 170GM06251360001. ऋण का प्रकारः ओवरड्राफ्ट सुविधा, कार्यशील पूंजी सावधि ऋण सुविधा, बैंक गारंटी सुविधा (ओवरड्राफ्ट सुविधा की उप-सीमा)	संपत्ति संख्या 01: एक आवासीय संपत्ति, विशिष्ट संपत्ति आईडी संख्या 166C10U143, मापः उत्तर-84 फीट 10.5 इंच, दक्षिण-86 फीट 11 इंच, पूर्व-28 फीट 6 इंच, पश्चिम-35 फीट खेवट संख्या 24, खसरा संख्या 37//6/1,15/4, कुल रकबा 3 कनाल 19 मैरी, 10/79 भाग अर्थात 10 मरले, 303.11 वर्ग गज, मौजा भटोली, गौशरला कॉलोनी के पास, तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर, हरियाणा। सीमाएँ- उत्तरः शशि भूषण की संपत्ति, दक्षिणः राज रानी की संपत्ति, पूर्वः रास्ता, पश्चिमः शिव राम अग्रवाल की संपत्ति, स्वामीः शिश भूषण पुत्र राम गोपाल और राम सरन पुत्र निरंजन। संपत्ति संख्या 02, गैर-कृषि संपत्ति, यानी प्लॉट संख्या 16, खसरा संख्या 33/78 का समस्त भाग, मोजा भटोली, सत्संग विहार जगाधरी, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर, नगर निगम सीमा यमुना नगर, जगाधरी हरियाणा। सीमाएँ: पूर्वः 33 फीट, पश्चिमः 33 फीट, उत्तरः 55 फीट, दक्षिणः 55 फीट, स्वामीः शिश भूषण पुत्र राम गोपाल।	एनपीए की तिथि सूचना की तिथि रु. 1,65,26,890.31/- (रुपए एक करोड़ पैसठ लाख छब्बीस हजार आठ सौ नब्बे मात्र) 25 जून, 2025 16 जून, 2025
तरण (कर्जदार) पुत्र श्याम सुंदर, पताः मकान संख्या 22/8, खैल बाजार, पानीपत, हरियाणा–132103, साथ ही पताः नरेंद्र एसटीडी पीसीओ, दुकान संख्या–9, गौशाला के पास, जीटी रोड, पानीपत–132103।	''अचल संपत्ति का समस्त भाग, एक किता मकान दार खसरा नंबर 4265 किता 1 रकबा 7 बीघे 1 बिस्वा का 7/1128 भाग बकदर रकबा 18 बिस्वासी यानी 44.61 वर्ग गज, वाका आबादी न्यू रमेश नगर, पानीपत वाका पट्टीः तरप इंसार पानीपत अंदर सीमा नगर निगम विक्रय विलेख 5867 दिनांक 29.11.2027, पानीपत, कुल कवर क्षेत्र 682 वर्ग फुट जिसका स्वामित्व अनिता के पास है। सीमाएँ: पूर्वः गली/गली, पश्चिमः तारा चंद का घर, उत्तरः निर्मल कौर का घर, दक्षिणः गली/गली	11.07.2025 तक रु. 1,194,996.02/- (रुपए ग्यारह लाख चौरानबे हजार नौ सौ छियानबे तथा दो पैसे मात्र) 05 अक्टूबर, 2025

उपर्युक्त कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) (जो भी प्रयोज्य हो) को एतद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल होने पर सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत कथित 60 दिनों की समाप्त के पश्चात आगे की कार्यवाही की जायेगी। यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत, यदि हमारे द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि सार्वजनिक नीलामी/बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय प्रस्तुत की जाती है तब बिक्री सम्पन्न नहीं की जाएगी और प्रतिभृत संपत्ति हमारे द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और उस प्रतिभृत संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

हस्ता./- (अधिकृत प्राधिकारी) यस बैंक लिमिटेड तिथि: 25.07.2025, स्थान: हरियाणा

> प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड पंत्रीकृत कार्यालयः ३०६, तृतीय जल, एलीट हाउस. ३६, सामुदायिक केंद्र, कैलाज़ कॉलोनी एकसटेक्टर, जमकट्या

वर्ष दिल्ली -110048. मीआईएन चे. L25209DL1992PLC049590 गंपके: 011-45537550, भिल: compliance.officer@premierpoly.com 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

克. 花.	6		पिछमा वर्षे ३०-०६-२०२४ स्टो समाग्र तिमाही	समाप्त सर्व 31-03-2035
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	7,497	7,130	30,464
2	अवधि तक नियल लाभ (कर-पूर्व, असाधारण और/या असाधारण मदें)	824	.783	3,463
3	कर-पूर्व अवधि हेतु कर-पूर्व नियल लाभ (असाधारण और/या असाधारण मदों के पश्चात)	824	783	3,463
4	कर-पश्चात अर्थाच हेतु निवल लाभ (असाधारण और/या असाधारण मदों के पश्चात)	600	588	2,600
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ (कर-पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर-पश्चात) सहित)	757	628	2,501
6	इविवरी शेवर पूँजी (अंकित मृल्य रू.1/- प्रति इक्विरी शेवर)	1,059	1,059	1,059
7	आरक्षित राशि (पुनर्मृल्यांकन आरक्षित राशि को छोड़कर) जैसा कि पिछले लेखा वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शोट में दर्शामा गया है	10,728	8,384	10,728
8	प्रति शेयर आय रु. १/- (चालू एवं चंद परिचालनों हेतु) वेसिक एवं डाइल्यूटेड*	0.57	2.81** (एकवी रु.5)	2.48 (एफवी रू.1)

गरिमा पंत

कंपनी सचिव

उपरोक्त साराश सेवी (सुचीबद्धता दाधित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल विशेष परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। विश्वीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट: www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर टपलब्ध है। यह कंपनी की वेबसाइट www.premierpoly.com पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति हारा की गई है तथा कंपनी के निदेशक मंडल हारा 23-07-2025 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है। "कंपनी ने 05 नवंबर, 2024 से उपलब्ध सभी इक्किटी शेयरों को रु. 5 प्रति इक्किटी शेयर से रु. 1 प्रति इक्किटी शेयर के पांच इक्किटी शेयरों में उपविभाजित कर दिय है, इसलिए प्रति शेवर आय की गणना र. 1 प्रति शेवर के अंकित मूल्य को ध्यान में रखकर की गई है। ""आय की गणना र. 5 प्रति इकियटी शेवर के आधार पर की

पिछली अवधि के प्रति शेयर आय को छोडकर, जहाँ आवश्यक हो वहाँ के अन्य आँकडों को वर्तमान अवधि के आँकडों के अनुरूप पनर्समहित,पनव्यंवरियत किया गया है। कंपनी की कोई सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनी(याँ) नहीं है।

कंपनी मुख्य रूप से फ्लेक्सिबल पीबीसी फ्लोरिंग, फिल्म तथा शीट्स के निर्माण एवं विक्री में लगी है। परिणामवश कंपनी के संचालन को एकल व्यावसायिक उत्पाद माना जाता है। खंड रिपोर्टिंग अप्रयोज्य है।

भारत में संचालित इस कंपनी का औएसटी अधिकारियों के साथ विवाद चल रहा है।



कते प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड अमिताभ गोयनका प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, दीआईएन: 00061027

Tel: 0120-6918000

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर के साथ-साथ सामान्य रूप से आम जनता को सूचित किया जाता "प्रपन्न सं. आईएनसी—26"

> केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

क्रियनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में|

डगमार मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 303 दीनार मवन, 44 सरु फोस, साऊव दिल्ली, नई दिल्ली—110019 में स्थित है

श्रम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी हेन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में ध्यानांतरित करने के लिए तारीख 30 जून, 2025 की गयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष करूप के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरू से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए--21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके दिरोध का कारण उल्लिखित हो व गय अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के काशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते रर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके परोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पत्ते पर भी भेजेगा। कृते लगगार मीकिया प्राइवेट लिमिटेल

(रखा मितल) स्थान : नई दिल्ली निर्देशक तिथि । 24.07.2025 बीआईएन : 06655719

सार्वजनिक सूचना केंद्र सरकार. उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

> मैसर्स रेडिएंट हीटिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 81/1. मटियाला, नियर टॉप्स अचार फैक्ट्री, दिल्ली-110059 पर स्थित है,के संबंध में

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि

----याचिकाकर्ता

30(6)(ए) के मामले में

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए11/07/2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के पतेः बी-2 विंग, 2 रा तल पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, 2 रा तल, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकत डाक से भेजेः

रेडिएंट हीटिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए आशु झिंगन दिनांक: 21/07/2025 स्थानः दिल्ली डीआईएनः 00153067

विज्ञापन सह -सार्वजनिक सूचना (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 82(1) के तहत प्रभार हटाने के लिए) मिकाबा एंटरप्राइजेज

प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U25209DL1999PTC101765) पंजीकृत कार्यालयः बी-31 डीडीए

शेड्स, ओखला इंड. एरिया, फेज II, नई दिल्ली-110020 सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मिकाबा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-31 डीडीए शेड्स, ओखला इंड. एरिया, फेज II, नई दिल्ली-110020 पर स्थित है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 87 के साथ पठित धारा 82(1) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के पास प्रभार आईडी: 90048234 जिसे 02/12/2020 को सिंडिकेट बैंक के पक्ष में रुपये 5,00,000/- (केवल पांच लाख रुपये) की राशि के लिए बनाया गया था, को हटाने के लिए एक आवेदन करेगी।

उक्त ऋण कंपनी द्वारा विधिवत चुका दिया गया था, और ऋण खाता समय पर बंद कर दिया गया था। हालांकि, बाद में सिंडिकेट बैंक के केनरा बैंक द्वारा अधिग्रहण और उस समय कुछ अनजाने प्रशासनिक चूक के कारण, उक्त प्रभार की संतुष्टि कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल नहीं की जा सकी। कंपनी अब कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली द्वारा रखे गए अपने रिकॉर्ड से उक्त प्रभार को हटाने के लिए एक आवेदन करेगी।

यदि उपर्युक्त प्रभार या उसे हटाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति या दावा हो, तो ऐसे व्यक्ति से अनुरोध किया जाता है कि वह इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर अपनी ऐसी आपत्ति या अभ्यावेदन, यदि कोई हो, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित को प्रस्तृत करेः

1. कंपनी रजिस्ट्रार, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, कॉपोर्रेट मामलों का मंत्रालय, आईएफसीआई टावर, 4थी मंजिल, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 ; और⁄या

कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय परः मिकाबा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, बी-31 डीडीए शेड्स, ओखला इंड. एरिया, फेज II, नई दिल्ली-110020

दूरभाष: 9717773383 निर्धारित समय के भीतर किसी आपत्ति के अभाव में, यह माना जाएगा कि उक्त प्रभार को हटाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ईमेल: k1.balan@gmail.com

मिकाबा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए दिनांक: 24/07/2025 हस्ता/-अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता स्थानः नई दिल्ली





बंधककर्ता / भागीदारों का

कब्जे का विवरण

16.07.2025

(मण्ये लाख में)

फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिभिटेड ण्पंजीकृत कार्यालयः वालेस टावर्स, तीसरी मंजिल, 139/140/बी/1, शार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का क्रॉसिंग, विले पार्ले (ई), मूंबई - 400057, टेलीफोनः 022- 68492450, फैक्सः 022- 67412313, सीआईएनः U67190MH2007PTC168303, र्झेलः info@phoenixarc.co.in वेबसाइटः www.phoenixarc.co.in परिसंपत्तियों की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 8 और 9 के साथ पठित, तथा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ताओं की सुरक्षित आस्तियों के कब्जे के अनसरण में, जो कि उक्त सरफेसी अधिनियम और सरक्षित ऋणों की वसली के लिए नियमों के तहत प्राधिकत अधिकारी के पास निहित है, प्राधिकृत अधिकारी ने नीलामी बिक्री द्वारा सुरक्षित आस्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

जनसता

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को फीनिक्स ट्रस्ट-वित्त वर्ष 22-21 (फीनिक्स) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत बंधक रखी गई निम्नलिखित संपत्तियां (हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड द्वारा फीनिक्स के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, दिनांक 30.12.2021 के असाइनमेंट समझौते के तहत) "जहां है, जैसा है और बिना किसी सहारे के आधार पर'' शर्त पर बेची जाएंगी, बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए ''ऑनलाइन ई-नीलामी'' के माध्यम से, जैसा कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे विस्तार से बताया गया है) वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसारः

श्री कमल कुमार बांदिल, 27 यमुना विहार, फेस 2, कर्मयोगी फब्बारा, कमला नगर, दयाल बाग, किरौली, आगरा, उत्तर उधारकर्ता का नाम राम नारायण एजेंसियां, इसके मालिक श्री कमल कुमार बांदिल के माध्यम से, अमर मार्केट, जौहरी बाजार, कर्मयोगी फब्बारा, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश — 282003 सह—दायित्वकर्ता / गारंटर / श्री रॉबिन बांदिल, सुश्री आशा बांदिल, श्री कमल कुमार बांदिल और मै. राम नारायण एजेंसियां

सरफेसी के दिनांक 2.11.2021 के नोटिस के अनुसार देय राशिः 31.10.2021 तक रु. 32,09,353.05/— (केवल बत्तीस लाख नौ हजार तीन **सौ तिरपन पैसे)** तथा उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। सरफेसी के दिनांक 3.06.2022 के नोटिस के अनुसार देय राशिरू 30.11.2021 तक रु. 50,33,707.94 / — (केवल पचास लाख तैंतीस हजार

सात सौ सात और चौरानबे पैसे) तथा उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। अचल संपत्ति का विवरणः मकान संख्या २७, नगर निगम संख्या ३२—डी / वाईबी / । 1−२७, क्षेत्रफल ७९.४२ वर्ग मीटर, भूमि खसरा संख्या १२३, १२४, यमुना

विहार कॉलोनी, हरिपर्वत वार्ड, तहसील और जिला आगरा में स्थित। सीमाएँ: पूर्व- अन्य भूमि, पश्चिम- 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर- मकान संख्या 26,

फीनिक्स एआरसी ने 15.03.2023 को सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त संपत्ति का भौतिक कब्जा

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि अनुरोध के अनुसार और समय आरक्षित मूल्य रु. 35,00,000 / — (केवल पैंतीस लाख रुपये) रु. 3.50.000 / – (केवल तीन लाख पचास हजार रुपये) बयाना राशि जमा ईएमडी प्रेषण विवरणः बैंक खाता – "फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 22—21" चालू खाताः 5846242904, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, शाखाः कलिना, मुंबई, आईएफएससी कोडः KKBK0000631

रु. 25,000 / – (पच्चीस हजार रुपये मात्र) एवं इसके गुणकों में **ईएमडी जमा करने की अंतिम** 18.07.2025 (सोमवार) शाम 5 बजे से पहले **ई-नीलामी की तिथि एवं समय** 19.08.2025 (मंगलवार) रात्रि 12:00 बजे से 1:00 बजे के मध्य

संपत्ति के निविदा दस्तावेजों के लिए लिंकः https://phoenixarc.co.in?p=2862 नियम और शर्तेः

1. 1. नीलामी बिक्री सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी के माध्यम से की जा रही है। नीलामी/बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" के माध्यम से वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से होगी। मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई—नीलामी के लिए मंच की व्यवस्था करने वाली सेवा प्रदाता है।2. नीलामी बोली दस्तावेज की शर्तों और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए बोलीदाता फीनिक्स की वेबसाइट www.phoenixarc.co.in और ऊपर उल्लिखित लिंक के साथ–साथ बोली दस्तावेजों, नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण / बोली फॉर्म प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदाता की वेबसाइट

ूण्इंदामंनबजपवदेण्बवउ पर जा सकते हैं। 3. बोलीदाता अपने स्वयं के कार्यालयों / अपनी पसंद के स्थान से ई–नीलामी में बोली लगाकर भाग ले सकते हैं। प्रत्येक बोलीदाता को इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्राधिकृत अधिकारी/फीनिक्स/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश डाउन, बिजली विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। 4. ई–नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री भाविक पंड्या से संपर्क कर सकते हैं, संपर्क संख्याः support@bankeauctions.com या maharashtra@c1india.com 5. बोलीदाता नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति के विवरण की पृष्टि करनेध्बोली फॉर्म प्राप्त करने के लिए फीनिक्स की वेबसाइट www/phoenixarc.co.in पर भी जा सकते हैं। 6. ई–नीलामी ऊपर उल्लिखित तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी, जब ऊपर उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति को "जैसा है जहां है" के आधार पर और "जैसा है जैसा है" और "बिना किसी सहारे के" शर्त पर बेचा जाएगा। 7. सभी इच्छुक क्रेता / बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और उपरोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नि:शूल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। 8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छूक क्रेता/ बोलीदाताओं को सुरक्षित परिसंपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10: की वापसी योग्य बयाना राशि के भुगतान का विवरण, पैनकार्ड की प्रतियां, कंपनी के मामले में बोर्ड के संकल्प और पते का प्रमाण, जैसा कि निविदा दस्तावेज में विशेष रूप से वर्णित है, उपरोक्त वर्णित ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक क्रेता / बोलीदाताओं को उपरोक्त वर्णित संपत्ति के लिए ईएमडी जमा करना आवश्यक है। ९. संभावित / इच्छुक बोल. ोदाता को यह वचन देना होगा कि वह दिवाला और दिवालियापन संहिता. 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऐसा वचन देने में विफल रहने पर वह स्वतः ही अयोग्य हो जाएगा या उसकी बोली खारिज कर दी जाएगी। 10. सफल क्रेता / बोल. ीदाता को प्रत्येक वस्तु के लिए अपनी पेशकश का 25: (ईएमडी सहित) आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ऊपर उल्लिखित खाते में नीलामी की तिथि को बैंकिंग समय समाप्त होने से पहले या अगले कार्य दिवस से पहले जमा करना होगा. जिस जमा की पष्टि फीनिक्स द्वारा की जानी होगी. ऐसा न करने पर बिक्री विफल मानी जाएगी और उक्त सफल क्रेताध्बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। 11. ई-नीलामी में सफल न होने वाले अन्य सभी बोल. ोदाताओं की ईएमडी फीनिक्स द्वारा ई—नीलामी समाप्त होने के 5 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। 12. खरीद मूल्य की शेष राशि सफल क्रेता / बोलीदाता द्वारा उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें (15) दिन या उससे पहले या लिखित रूप में सहमत ऐसी विस्तारित अवधि तक देय होगी। चूक की स्थिति में, तब तक जमा की गई सभी राशि जब्त कर ली जाएगी। 13. संपत्ति / भवन के निरीक्षण या अधिक जानकारी के लिए, संभावित बोलीदाता श्री महेश मालुंजकर / सुश्री लोपा जोशी से निम्नलिखित ईमेल पते mahesh.m@phoenixarc.co.in/ lopa.joshi@phoenixarc.com / (ईमेल) या +91-09920381684 / +91-8655458532 (मोबाइल) पर संपर्क कर सकते हैं। 14. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सचना के ई-नीलामी/बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकारध्संशोधितध्रद्द कर सकता है या नीलामी को स्थगित कर सकता है। 15. सफल क्रेत / बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित / सूपूर्व करवाने के लिए देय कोई भी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। 16. किसी भी समय संपत्ति के लिए देय सभी वैधानिकध्मेर-वैधानिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन, शुल्क, सोसायटी बकाया, शुल्क आदि का भुगतान केवल सफल बोलीदाता की ही जिम्मेदारी होगी। 17. सफल क्रेता / बोलीदाता अधिकारों के अपने पक्ष में हस्तांतरण के लिए सोसायटी / किसी अन्य प्राधिकरण को देय किसी भी लागत / व्यय / शुल्क / प्रभार आदि के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। 18. उधारकर्ता / बंधककर्ता, जो उक्त बकाया राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस बिक्री नोटिस को उपर्युक्त नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8 खंड (6) के तहत एक नोटिस के रूप में मानेंगे। 19. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्ति के शीर्षक और सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, जिसमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी होगी। नीलामी विज्ञापन फीनिक्स की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा। फीनिक्स का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 20. समाचार पत्र में प्रकाशित ई–नीलामी नोटिस में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, तथापि, प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा। 21. यदि किसी भी कारण से उपर्युक्त ई—नीलामी असफल हो जाती है, तो फीनिक्स को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) और सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत किसी अन्य तरीके से सुरक्षित परिसंपत्ति को बेचने का अधिकार है।

स्थानः आगरा दिनांक: 25.07.2025

हस्ता / –प्राधिकृत अधिकारी फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड, (फीनिक्स ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 22-21)

APLAPOLLO

APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443 Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 Corp. Office: SG Centre, 37C, Block B, Sector 132, Noida, U.P. 201304 Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com





EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(₹ in Crs, except earning per share data)

C No	Particulars	Quarter ended		Year ended	
S. No	Particulars	June 30, 2025 June 30, 2024		March 31, 2025	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	5,169.77	4,97430	20,689.54	
2	EBITDA (Including other income)	397.57	326.36	1,295.04	
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	309.95	252.02	960.44	
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	309.95	252.02	960.44	
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	237.17	193.17	757.06	
6	Total Comprehensive income for the period	255.95	198.96	74236	
7	Equity Share Capital	55.51	55.51	55.51	
8	Other Equity	17E	- 83	4,153.21	
9	Earnings Per Share (face value of ₹2/-not annualised for quarterly figures) Basic: Diluted:	8.55 8.54	6.96 6.96	27.28 27.28	

(7 in Crs.) Notes: Brief of Standalone Unaudited Financial Results for the guarter ended June 30, 2025: Quarter ended Year ended **Particulars** June 30, 2025 June 30, 2025 March 31, 2025 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) Income from Operations 3,372.54 3.50134 14,360.71 Profit Before Tax 156.44 123.41 42454 Profit After Tax 116.05 92.44 335.59

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.aplapollo.com". The same can be accessed by scanning the QR Code provided below:







epaper.jansatta.com

साऊथ वंस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110075 में स्थित है

2.कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगेः पुष्टि की मांग की गई है।

द्वारका, यूनिट नं. 594 द्वारका संवटर-६. साऊथ वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110075

तिथि । 25.07.2025

CORD5 कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 94, प्रथम तल, शंभू दयाल बाग मार्ग, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-III के पास, ओल्ड ईश्वर नगर, नई दिल्ली - 110020 फोन: 011-40551200, फैक्स: 011-20887232, ईमेल: ccil@cordscable.com, वेबसाइटः www.cordscable.com CIN: L74999DL1991PLC046092

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 29 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की 215वीं बैठक गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2025 को समाप्त पहली तिमाही/3 महीने के लिए वैधानिक ऑडिटर द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणामों और एजेंडा के अनुसार अन्य मदों पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा। उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट www.cordscable.com तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जैसे www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 2015 के अनुसार, ट्रेडिंग विंडो कंपनी के प्रतिभृतियों में व्यापार करने के लिए सभी नामित व्यक्तियों और उनके निकट

कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से

सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरणः

संपत्ति का वह सभी भाग एवं हिस्सा जिसमें शामिल

हैं:साइट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,गाजियाबाद, तहसील

और जिला गाजियाबाद (यूपी) में स्थित प्लॉट संख्या

57 / 1 / 9 पर निर्मित संरचना, जिसका क्षेत्रफल 413.36 वर्ग

मीटर है। कवर्ड एरिया। उत्तरः प्लॉट संख्या 57/8, पूर्व

प्लॉट संख्या 57/2, दक्षिणः प्लॉट संख्या 57/1/10,

ऋण खाता संख्या, मांग नोटिस तिथि और राशिः

₹. 51,15,531.96 / −(इक्यावन लाख पंद्रह हजार पांच सौ

कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

अधिकृत अधिकारी

हस्ता. / -ऋतु तोमर

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

पश्चिमः ४० फीट चौडी सडक।

इकतीस रुपये और छियानवे पैसे मात्र)

एनपीए तिथिः 22.07.2021

सीआईएन: L17111DL1982PLC013790.

दिक्षणी दिल्ली, नई दिल्ली- 110019

रोयरधारकों के लिए सूचना

करने के लिए विशेष विंडो

एक विशेष विंडो खोली है, जो 01 अप्रैल 2019 की समय सीमा से पहले

प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेजों / प्रक्रिया में कमी या अन्यथा के कारण

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 23 जुलाई, 2025

बंद रहेगी।

कोटक महिंद्रा बेक लिमिटेंड

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है) इसका शाखा कार्यालय ईपीआईसीएएच

ऋण सुविधा की व्यापक ईएमआई चुकाने और / या केएमबीएल को अपनी क्रेडिट सुविधाओं के ब्याज की पूर्ति करने में विफल रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनके ऋण खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्ताओं ने केएमबीएल को अचल संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। आज तक बकाया ऋण का विवरण और उधारकर्ताओं द्वारा केएमबीएल को बकाया और देय राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

है कि अधोहस्ताक्षरी केएमबीएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, सुरक्षित ऋणदाता ने वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी)के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता ने इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के सामने दर्शाए गए बकाया को चुकाने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (2) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसमें उसे संपत्तियों | पर कब्ज़ा करने और उसे बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे

वर्णित संपत्ति के साथ लेन-देन न करें। उधारकर्ताओं / गारंटर और बंधककर्ता का नाम

प्रदेश)—201010, **2**.

तल, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 ,इसके अतिरिक्तः-सी-200-डी, द्वितीय तल, गुरुनानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, 3. श्रीमती **रुना झा (सह-उधारकर्ता)** साइट- IV, 56, 59 प्रथम तल, साहिबाबाद,गाजियाबाद-201010

दिनांकः 25.07.2025 स्थानः गाजियाबाद

यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय : 5वाँ तल, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू प्लेस, दूरभाष : +91-11-49953454; ईमेल : cs@lendingplate.com; वेबसाइट : www.unifinz.in

भौतिक रोयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसरण में, कंपनी ने निवेशकों के लिए भौतिक शेयरों के हस्तातरण के उन अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने हेतु छह महीने की

अस्वीकार/वापस कर दिए गए/उपस्थित नहीं किए गए थे। यह विंडो 07 जुलाई 2025 को खुलेगी और 06 जनवरी 2026 को बंद होगी। इस अवधि के दौरान, सभी पुनः प्रस्तुत प्रतिभूतियाँ केवल डीमैट रूप में जारी की जाएंगी, तथा हस्तांतरण-सह-डीमेट अनुरोधों की मानक प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए।

जिन शेयरधारकों ने 31 मार्च 2021 की पूर्व निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुति में चूक कर दी है, उन्हें कंपनी के आरटीए यानी स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शेयरधारक के पास एक डीमैट खाता अवश्य होना चाहिए और हमारे आरटीए के पास हस्तांतरण अनुरोध पुनः प्रस्तुत करते समय, उन्हें हस्तांतरण दस्तावेजों और शेयर प्रमाणपत्रों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर

उन भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए कानूनी रूप से मान्य और पूर्ण दस्तावेजों को पुनः प्रस्तुत करने पर विचार किया जाएगा, जहाँ स्वामित्व पर कोई विवाद नहीं है। निवेशक अपना अनुरोध 06 जनवरी 2026 तक हमारे आरटीए के पास नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकते हैं : स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

डी–153 / ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-।, नई दिल्ली- 110020,

वेबसाइट : www.skylinerta.com/ ईमेल : admin@skylinerta.com

कृते यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया लिमिटेड

दिनाँक : 25 जुलाई 2025 स्थान : दिल्ली

प्लॉट नं. ६, वेगास मॉल, सेक्टर 14,

गिर ढेयरी फार्मिंग प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड **官**代Ⅱ / -

संबंधियों के लिए पहले से ही 01 जुलाई, 2025 से बंद कर दी गई है और यह 30 जुन, 2025 को समाप्त पहली तिमाही/3 महीने के अन-अंकेक्षित परिणामों के सार्वजनिक होने के 48 घंटे बाद तक

निदेशक मंडल के आदेश से

हुत कार्यालयः 27बीकेसी , सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051, १एच मॉल, द्वितीय तल, 68,68/1, नजफगढ़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस,

मॉल, द्वितीय तल, 68,68/1, नजफगढ़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, मोती नगर, नई दिल्ली-110015 पर है, जो

1.मेसर्स एक्वा रॉयल इंजीनियरिंग (उधारकर्ता

सूची (सीएमएल) भी प्रस्तुत करनी होगी।

+91-11-40450193-97 और 011-26812682-83

बीन शक्ता

FINANCIAL EXPRESS



KFIN TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72400MH2017PLC444072

Registered office address: 301, The Centrium, 3rd Floor, 57, Lal Bahadur Shastri Road, Nav Pada, Kurla (West), Mumbai - 400070, Maharashtra Tel. No.: 022 4962 0337, Website: www.kfintech.com, Email: investorrelations@kfintech.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(₹ in Millions)

			Year ended		
SI. No.	Particulars	June 30, 2025	March 31, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025
		(Unaudited)	(Audited - Refer Note 4)	(Unaudited)	(Audited)
1	Revenue from operations	2,740.58	2,826.98	2,375.62	10,907.52
2	Net profit before tax (from ordinary activities)	1,049.05	1,142.25	918.06	4,475.90
3	Net profit before tax (after extraordinary activities)	1,049.05	1,142.25	918.06	4,475.90
4	Net profit after tax attributable to shareholders of the Company	772.57	850.53	680.72	3,326.25
5	Total comprehensive income attributable to shareholders of the Company	779.24	840.85	680.81	3,324.24
6	Paid-up equity share capital	1,721.88	1,720.83	1,713.20	1,720.83
7	Reserves (excluding "revaluation reserve")	13,199.27	12,357.47	10,463.32	12,357.47
8	Securities premium account	5,817.39	5,768.60	5,615.45	5,768.60
9	Earnings' per equity share ('EPS') [face value of share: ₹ 10 each]*		2012/2019/2019	C-III-MCD-C	
	Basic	4.49	4.95	3.98	19.39
	Diluted	4.45	4,91	3.94	19.27


Financial results of KFin Technologies Limited (standalone financial results)

(₹ in Millions)

	CLOSINO NEW CONTRACTOR AND I		Year ended		
SI. No.		June 30, 2025 (Unaudited)	March 31, 2025) (Audited - Refer Note 4)	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)
1	Revenue from operations	2,644.50	2,742.85	2,295.91	10,554.99
2	Net profit before tax (from ordinary activities)	1,027.17	1,094.37	911.73	4,381.96
3	Net profit before tax (after extraordinary activities)	1,027.17	1,094.37	911.73	4,381.96
4	Net profit after tax	760.97	814.73	678.54	3,255.48

- The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard prescribed under Section 133 of the Companies Act. 2013 and are in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and
- 3 The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on July 24, 2025. The statutory auditors have expressed an unmodified review conclusion on these results. 4 The figures for the guarter ended March 31, 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year 2024-25
- and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the financial year 2024-25, which were subject to limited review. 5 The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing
- Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended Financial Results (Standalone and Consolidated) are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com and the Company i.e. www.kfintech.com. The same can be accessed by scanning the QR code provided below:

Place: Mumbai Date: July 24, 2025



Sreekanth Nadella Managing Director and Chief Executive Officer DIN: 08659728

Adfactors 295/25

APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443

Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 Corp. Office: SG Centre, 37C, Block B, Sector 132, Noida, U.P. 201304 Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com



Notes:





(₹ in Crs. except earning per share data)

APLAPOLLO

S. No	Particulars	Quarte	r ended	Year ended
5. 140	Particulars	June 30, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
11	Total Income from Operations	5,169.77	4,974.30	20,689.54
2	EBITDA (Including other income)	397,57	326.36	1,295.04
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	309.95	252.02	960.44
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	309.95	252.02	960.44
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	237.17	193.17	757,06
6	Total Comprehensive income for the period	255.95	198.96	742.36
7	Equity Share Capital	55.51	55.51	55.51
8	Other Equity		T B	4,153.21
9	Earnings Per Share (face value of ₹2/-not annualised for quarterly figures) Basic: Diluted:	8.55 8.54	6.96 6.96	27.28 27.28

4	Brief of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025:					
	Particulars	Quarte	Quarter ended			
		June 30, 2025	June 30, 2025	March 31, 2025		
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		
	Income from Operations	3,372.54	3,501.34	14,360.71		
	Profit Before Tax	156.44	123.41	424.54		
	Profit After Tax	116.05	92.44	335.59		
2	The above is an extract of the detailed	d format of Unaudited Financia	al Results filed with th	ne Stock Exchange		

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.aplapollo.com". The same can be accessed by scanning the QR Code provided below:



For APL Apollo Tubes Limited

(7 in Crs.)

Sanjay Gupta Chairman and Managing Director



CORDS **Cords Cable Industries Limited**

Registered Office: 94,1st Floor,Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110020 Tel: 011-40551200 * Fax: 011-20887232 * E-mail: ccil@cordscable.com website: www.cordscable.com * CIN: L74999DL1991PLC046092

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that 215th meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, July 31st, 2025 to consider and approve, inter alia, Un-audited Financial Results alongwith Limited Review Report by the statutory auditor for the 1st Quarter/3 months ended on June 30th, 2025 and other items as

The above information is also available on the website of the company viz. (www.cordscable.com) and the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed viz. (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com). In accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the Company has already been closed for all the designated persons and their immediate relatives w.e.f July 01st, 2025 till 48 hours after the Un-audited Financial Results for the 1st Quarter/ 3 months ended on June 30th, 2025 is made public.

> By Order of Board of Directors For Cords Cable Industries Limited

Place: New Delhi Garima Pant Date: July 23, 2025 **Company Secretary**

DHANUKA AGRITECH LIMITED Corporate Identity Number: L24219HR1985PLC122802

Registered & Corporate Office: Global Gateway Towers, M.G. Road, Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram-122 002, Haryana, India Tel: +91 124 434 5000 | Email: investors@dhanuka.com | Website: www.dhanuka.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that Pursuant to SEBI Circular No.SEBI/HO/MIRSD/MIRSD PoD/P/CIR/2025/97, dated July 02, 2025, the Company is pleased to offer one time special window for physical shareholders to submit re-lodgement requests for the transfer of shares. The Special Window will be open from July 07, 2025 to January 06, 2026 and is applicable to cases where original share transfer requests were lodged prior to April 01, 2019 and were returned/unattended or rejected due to deficiencies in documentation, process or any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window. Eligible shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), Abhipra Capital Limited at info@abhipra.com; Contact Number: 9810687681, Unit: Dhanuka Agritech Limited, A-387, Abhipra Complex Dilkhush Industrial Area, G.T. Karnal Road, Azadour, Delhi - 110033, India.

Jitin Sadana

For Dhanuka Agritech Limited

Place: Gurugram Company Secretary and Compliance Officer Dated: 24.07.2025 FCS-7612

metsl

MAESTROS ELECTRONICS & TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS LIMITED

Registered Office: Plot No. EL/66, TTC Industrial Area, Electronic Zone, Mahape, Thane, Navi Mumbai- 400701. CIN: L74900MH2010PLC200254

Tel No: +91-22-2761 11 93 | Email id: cs@metsl.in | website: www.maestroselectronics.com

Statement of Un- Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended June 30, 2025.

[See Regulation 47 (1) (b) the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

The Board of Directors of the Company at the meeting held on Wednesday, July 23, 2025, approved the Un- Audited Financial Results (Standalone and

The results along with the Limited Review report have been uploaded on the

Consolidated) of the Company for Quarter ended June 30, 2025.

website at https://maestroselectronics.com/investor and the same can be accessed by scanning the QR code

> For Maestros Electronics and Telecommunications Systems Limited Sd/-

Balkrishna Kamalakar Tendulkar Managing Director DIN: 02448116

one 97

Date: 23.07.2025

Place: Mumbai

ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED

CIN: L72200DL2000PLC108985 Registered Office: First Floor, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi-110019, India

Tel: +91 11 2628 0280; Website: www.paytm.com Corporate Office: Paytm Corporate Office, One Skymark, Tower-D, Plot No. H-10B, Sector-98 Noida-201304, Uttar Pradesh, India Tel: +91 120 4770770; E-mail: compliance.officer@paytm.com; Fax: +91 120 4770771

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

Pursuant to SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, shareholders of One 97 Communications Limited, those who are still holding shares in physical form, are hereby informed that a special window has been opened from July 07, 2025 to January 06, 2026, for re-lodgement of transfer deeds.

Shareholders are requested to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to deadline of April 01, 2019 for transfer of physical shares and rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process/or otherwise. Shareholders who wish to avail the opportunity, are requested to contact our Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Pvt. Ltd.) at delhi@in.mpms.mufg.com; Contact No. 011-49411000, Address: Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2,

C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janak Puri, New Delhi -110058. The Company's website, i.e. https://ir.paytm.com/ has been updated with the details regarding the opening of this special window and further updates,

For One 97 Communications Limited

Place: Noida

Date: July 24, 2025

if any, shall be uploaded.

Sunil Kumar Bansal Company Secretary and Compliance Officer



Bandhan Bank Limited

CIN: L67190WB2014PLC204622;

Regd. Office: DN - 32, Sector - V, Salt Lake, Kolkata - 700 091; Head Office: Floors 12 - 14, Adventz Infinity@5, BN 5,

Sector - V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091; Phone: +91-33-6609 0909; E-mail ID: investors@bandhanbank.com; Website: www.bandhanbank.com

Notice of the Eleventh Annual General Meeting to be held through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means

Thursday, August 21, 2025, at 11.00 a.m., IST, through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ('SEBI LODR'), General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 ('MCA Circulars') issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), and other applicable and related circulars, if any, on the matter, issued by the MCA and the SEBI (collectively referred to as 'AGM related circulars'), to transact the businesses that will be set forth in the Notice convening the 11" AGM of the Bank. Members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM facility or view the live webcast at https://www.evoting.nsdl.com/. The Bank has appointed National Securities Depository Limited ('NSDL') to provide VC facility for the AGM and also as a service provider to provide the electronic voting facility for the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

NOTICE is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Bandhan Bank Limited ('the Bank'), will be held on

In compliance with the AGM related circulars, the Notice of the 11" AGM and Annual Report for the Financial Year ('FY') 2024-25, will be sent only through electronic mode to all those Members who have registered their e-mail addresses with the Bank/the Bank's Registrar and Transfer Agent ('RTA'), KFin Technologies Limited ('KFintech') [in respect of shares held in physical form]/Depositories Participants ('DP') [in respect of shares held in dematerialised form] and made available to the Bank by the respective depositories. Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI LODR, the Bank is also sending a letter, providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report for the FY 2024-25 is available, to those shareholder(s) who have not so registered their e-mail address with the Bank/RTA or DP. The Notice of the AGM and Annual Report for FY 2024-25 will also be made available on the Bank's website at https://bandhanbank.com/annual-reports and on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and on the website of the Service Provider for e-voting, i.e., NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Manner of casting vote(s) through e-voting

https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx.

The Bank will be providing the facility to the Members to cast their vote(s) on the businesses set out in the Notice of the 11th AGM through electronic voting system ('e-voting'). The manner of voting remotely ('remote e-voting') by Members holding shares in dematerialised mode/physical mode and for those Members, who have not registered their e-mail addresses, will be provided in the Notice of the AGM. E-voting facility will also be made available during the AGM and Members attending the AGM, who have not cast their vote(s) through remote e-voting, will be able to cast their vote(s) during the AGM through e-voting. The detailed instructions for joining the AGM and e-voting are being provided in the Notice of the AGM.

Members, who do not receive e-mail or whose e-mail addresses are not registered with the Bank/KFintech/DP, may generate login credentials by following the instructions given in the Notes to the Notice of the AGM. The login credentials, as used for e-voting, should also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Members who have not registered their email addresses may register their email addresses with the Bank, as mentioned hereunder:

- (a) For shareholders holding share(s) in physical form- SEBI vide Section V of its 'Master Circular for Registrars to an Issue and Share Transfer Agents' dated June 23, 2025, has made mandatory for shareholders holding shares of the Bank in physical form, to, inter alia, update their KYC including contact details, e-mail address, mobile no., bank details, and choice of nominations, etc., by furnishing requisite details in Forms ISR-1 and ISR-2. In this connection, the form, as notified by SEBI, along with other requisite details, are available at the Bank's website at https://bandhanbank.com/sebi-circular and at the KFintech's website at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx.
- (b) For Demat Holders- Members holding shares of the Bank in electronic form can verify/update their respective email addresses and mobile numbers with their respective DPs.


Members are requested to register/update their complete bank details for receiving Dividends directly in their bank accounts, in the manner as given below:

- with their Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode, by submitting the requisite documents; and
- with the Bank/KFintech, if shares are held in physical mode, by submitting duly filled in Forms ISR-1 and ISR-2, along with folio number, bank details (Bank Account Number, Bank & Branch Name and Address, IFSC, MICR details), self-attested copy of the PAN card and self-certified copy of bank passbook/ bank statement attested by bank in original or original cancelled cheque leaf bearing the name of the shareholder printed on it. Further details are available at the Bank's website at https://bandhanbank.com/sebi-circular and at the RTA's website at

For Bandhan Bank Limited Indranil Banerjee

Company Secretary

Place: Kolkata Date: July 24, 2025



FINANCIAL EXPRESS

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED

KFINTECH

CIN: L72400MH2017PLC444072

Registered office address: 301, The Centrium, 3rd Floor, 57, Lal Bahadur Shastri Road, Nav Pada, Kurla (West), Mumbai - 400070, Maharashtra Tel. No.: 022 4962 0337, Website: www.kfintech.com, Email: investorrelations@kfintech.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(₹ in Millions)

			Year ended		
SI. No.	Particulars	June 30, 2025	March 31, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025
		(Unaudited)	(Audited - Refer Note 4)	(Unaudited)	(Audited)
1	Revenue from operations	2,740.58	2,826.98	2,375.62	10,907.52
2	Net profit before tax (from ordinary activities)	1,049.05	1,142.25	918.06	4,475.90
3	Net profit before tax (after extraordinary activities)	1,049.05	1,142.25	918.06	4,475.90
4	Net profit after tax attributable to shareholders of the Company	772.57	850.53	680.72	3,326.25
5	Total comprehensive income attributable to shareholders of the Company	779.24	840.85	680.81	3,324.24
6	Paid-up equity share capital	1,721.88	1,720.83	1,713.20	1,720.83
7	Reserves (excluding "revaluation reserve")	13,199.27	12,357.47	10,463.32	12,357.47
8	Securities premium account	5,817.39	5,768.60	5,615.45	5,768.60
9	Earnings' per equity share ('EPS') [face value of share: ₹ 10 each]*		2047-2024-2027		C-STANCES
	Basic	4.49	4.95	3.98	19.39
	Diluted	4.45	4.91	3.94	19.27

Place: Mumbai Date: July 24, 2025

Notes:

Financial results of KFin Technologies Limited (standalone financial results)

(₹ in Millions)

	Particulars		Year ended		
SI.		June 30, 2025 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited - Refer Note 4)	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)
1	Revenue from operations	2,644.50	2,742.85	2,295.91	10,554.99
2	Net profit before tax (from ordinary activities)	1,027.17	1,094.37	911.73	4,381.96
3	Net profit before tax (after extraordinary activities)	1,027.17	1,094.37	911.73	4,381.96
4	Net profit after tax	760.97	814.73	678.54	3,255.48

- Act, 2013 and are in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and
- 3 The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on July 24, 2025. The statutory auditors have expressed an unmodified review conclusion on these results.
- 4 The figures for the quarter ended March 31, 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year 2024-25 and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the financial year 2024-25, which were subject to limited review.
- 5. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended Financial Results (Standalone and Consolidated) are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com and the Company i.e. www.kfintech.com. The same can be accessed by scanning the QR code provided below:



for KFin Technologies Limited

Sreekanth Nadella Managing Director and Chief Executive Officer DIN: 08659728

Adfactors 295/25

APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443

Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 Corp. Office: SG Centre, 37C, Block B, Sector 132, Noida, U.P. 201304 Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com







EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(₹ in Crs. except earning per share data)

APLAPOLLO

S. No	Particulars	Quarte	r ended	Year ended
5. 140	Particulars	June 30, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
11:	Total Income from Operations	5,169.77	4,974.30	20,689.54
2	EBITDA (Including other income)	397.57	326.36	1,295.04
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	309.95	252.02	960.44
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	309.95	252.02	960.44
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	237.17	193.17	757.06
6	Total Comprehensive income for the period	255.95	198.96	742.36
7	Equity Share Capital	55.51	55.51	55.51
8	Other Equity	<u> </u>	1 12	4,153.21
9	Earnings Per Share (face value of ₹2/-not annualised for quarterly figures) Basic: Diluted:	8.55 8.54	6.96 6.96	27.28 27.28

(7 in Crs.) Brief of Standalone Unaudited Financial Results for the guarter ended June 30, 2025: Quarter ended Year ended Particulars June 30, 2025 June 30, 2025 March 31, 2025 (Unaudited) (Unaudited) (Audited)

92.44 Profit After Tax 116.05 335.59 2 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.aplapollo.com".

3,372.54

156.44



Income from Operations

Profit Before Tax

For APL Apollo Tubes Limited Sanjay Gupta

14,360.71

424.54

3,501.34

123.41

Chairman and Managing Director



CORDS **Cords Cable Industries Limited**

Registered Office: 94,1st Floor,Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110020 **Tel:** 011-40551200 * **Fax:** 011-20887232 * **E-mail:** ccil@cordscable.com website: www.cordscable.com * CIN: L74999DL1991PLC046092

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that 215th meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, July 31st, 2025 to consider and approve, inter alia, Un-audited Financial Results alongwith Limited Review Report by the statutory auditor for the 1st Quarter/ 3 months ended on June 30th, 2025 and other items as per agenda.

The above information is also available on the website of the company viz. (www.cordscable.com) and the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed viz. (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com). In accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the Company has already been closed for all the designated persons and their immediate relatives w.e.f July 01st, 2025 till 48 hours after the Un-audited Financial Results for the 1st Quarter/ 3 months ended on June 30th, 2025 is made public.

> By Order of Board of Directors For Cords Cable Industries Limited

Place: New Delhi Garima Pant Date: July 23, 2025 **Company Secretary**

DHANUKA AGRITECH LIMITED Corporate Identity Number: L24219HR1985PLC122802

Registered & Corporate Office: Global Gateway Towers, M.G. Road, Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram-122 002, Haryana, India Tel: +91 124 434 5000 | Email: investors@dhanuka.com | Website: www.dhanuka.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that Pursuant to SEBI Circular No.SEBI/HO/MIRSD/MIRSD PoD/P/CIR/2025/97, dated July 02, 2025, the Company is pleased to offer one time special window for physical shareholders to submit re-lodgement requests for the transfer of shares. The Special Window will be open from July 07, 2025 to January 06, 2026 and is applicable to cases where original share transfer requests were lodged prior to April 01, 2019 and were returned/unattended or rejected due to deficiencies in documentation, process or any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window. Eligible shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), Abhipra Capital Limited at info@abhipra.com; Contact Number: 9810687681, Unit: Dhanuka Agritech Limited, A-387, Abhipra Complex Dilkhush Industrial Area, G T Karnal Road, Azadpur, Delhi - 110033, India. For Dhanuka Agritech Limited

Jitin Sadana

Place: Gurugram Company Secretary and Compliance Officer Dated: 24.07.2025 FCS-7612

metsl

MAESTROS ELECTRONICS & TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS LIMITED

Registered Office: Plot No. EL/66, TTC Industrial Area, Electronic Zone, Mahape, Thane, Navi Mumbai- 400701. CIN: L74900MH2010PLC200254

Tel No: +91-22-2761 11 93 | Email id: cs@metsl.in | website: www.maestroselectronics.com

Statement of Un- Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended June 30, 2025.

[See Regulation 47 (1) (b) the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

The Board of Directors of the Company at the meeting held on Wednesday, July 23, 2025, approved the Un- Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for Quarter ended June 30, 2025.

The results along with the Limited Review report have been uploaded on the website at https://maestroselectronics.com/investor and the same can be

accessed by scanning the QR code

For Maestros Electronics and Telecommunications Systems

Limited Sd/-Balkrishna Kamalakar Tendulkar

Managing Director DIN: 02448116



Date: 23.07.2025

Place: Mumbai

paytm

ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED

CIN: L72200DL2000PLC108985 Registered Office: First Floor, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi-110019, India

Tel: +91 11 2628 0280; Website: www.paytm.com Corporate Office: Paytm Corporate Office, One Skymark, Tower-D, Plot No. H-10B, Sector-98 Noida-201304, Uttar Pradesh, India Tel: +91 120 4770770; E-mail: compliance.officer@paytm.com; Fax: +91 120 4770771

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

Pursuant to SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, shareholders of One 97 Communications Limited, those who are still holding shares in physical form, are hereby informed that a special window has been opened from July 07, 2025 to January 06, 2026, for re-lodgement of transfer deeds.

Shareholders are requested to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to deadline of April 01, 2019 for transfer of physical shares and rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process/or otherwise. Shareholders who wish to avail the opportunity, are requested to contact our Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited

(Formerly known as Link Intime India Pvt. Ltd.) at delhi@in.mpms.mufg.com; Contact No. 011-49411000, Address: Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janak Puri, New Delhi -110058. The Company's website, i.e. https://ir.paytm.com/ has been updated with the details regarding the opening of this special window and further updates, if any, shall be uploaded.

For One 97 Communications Limited

Place: Noida

Date: July 24, 2025

Sunil Kumar Bansal Company Secretary and Compliance Officer



Bandhan Bank Limited

CIN: L67190WB2014PLC204622; Regd. Office: DN - 32, Sector - V, Salt Lake, Kolkata - 700 091;

Head Office: Floors 12 - 14, Adventz Infinity@5, BN 5,

Sector - V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091; Phone: +91-33-6609 0909; E-mail ID: investors@bandhanbank.com; Website: www.bandhanbank.com

Notice of the Eleventh Annual General Meeting to be held through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means NOTICE is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Bandhan Bank Limited ('the Bank'), will be held on

Thursday, August 21, 2025, at 11.00 a.m., IST, through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ('SEBI LODR'), General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 ('MCA Circulars') issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), and other applicable and related circulars, if any, on the matter, issued by the MCA and the SEBI (collectively referred to as 'AGM related circulars'), to transact the businesses that will be set forth in the Notice convening the 11" AGM of the Bank. Members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM facility or view the live webcast at https://www.evoting.nsdl.com/. The Bank has appointed National Securities Depository Limited ('NSDL') to provide VC facility for the AGM and also as a service provider to provide the electronic voting facility for the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the AGM related circulars, the Notice of the 11" AGM and Annual Report for the Financial Year ('FY') 2024-25, will be sent only through electronic mode to all those Members who have registered their e-mail addresses with the Bank/the Bank's Registrar and Transfer Agent ('RTA'), KFin Technologies Limited ('KFintech') [in respect of shares held in physical form]/Depositories Participants ('DP') [in respect of shares held in dematerialised form] and made available to the Bank by the respective depositories. Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI LODR, the Bank is also sending a letter, providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report for the FY 2024-25 is available, to those shareholder(s) who have not so registered their e-mail address with the Bank/RTA or DP. The Notice of the AGM and Annual Report for FY 2024-25 will also be made available on the Bank's website at https://bandhanbank.com/annual-reports and on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and on the website of the Service Provider for e-voting, i.e., NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Manner of casting vote(s) through e-voting

https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx.

The Bank will be providing the facility to the Members to cast their vote(s) on the businesses set out in the Notice of the 11th AGM through electronic voting system ('e-voting'). The manner of voting remotely ('remote e-voting') by Members holding shares in dematerialised mode/physical mode and for those Members, who have not registered their e-mail addresses, will be provided in the Notice of the AGM. E-voting facility will also be made available during the AGM and Members attending the AGM, who have not cast their vote(s) through remote e-voting, will be able to cast their vote(s) during the AGM through e-voting. The detailed instructions for joining the AGM and e-voting are being provided in the Notice of the AGM.

Members, who do not receive e-mail or whose e-mail addresses are not registered with the Bank/KFintech/DP, may generate login credentials by following the instructions given in the Notes to the Notice of the AGM. The login credentials, as used for e-voting, should also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Members who have not registered their email addresses may register their email addresses with the Bank, as mentioned hereunder: (a) For shareholders holding share(s) in physical form- SEBI vide Section V of its 'Master Circular for Registrars to an Issue and Share Transfer Agents'

- dated June 23, 2025, has made mandatory for shareholders holding shares of the Bank in physical form, to, inter alia, update their KYC including contact details, e-mail address, mobile no., bank details, and choice of nominations, etc., by furnishing requisite details in Forms ISR-1 and ISR-2. In this connection, the form, as notified by SEBI, along with other requisite details, are available at the Bank's website at https://bandhanbank.com/sebi-circular and at the KFintech's website at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx.
- (b) For Demat Holders- Members holding shares of the Bank in electronic form can verify/update their respective email addresses and mobile numbers with their respective DPs.

given below:

Members are requested to register/update their complete bank details for receiving Dividends directly in their bank accounts, in the manner as

- with their Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode, by submitting the requisite documents: and
- with the Bank/KFintech, if shares are held in physical mode, by submitting duly filled in Forms ISR-1 and ISR-2, along with folio number, bank details (Bank Account Number, Bank & Branch Name and Address, IFSC, MICR details), self-attested copy of the PAN card and self-certified copy of bank passbook/ bank statement attested by bank in original or original cancelled cheque leaf bearing the name of the shareholder printed on it. Further details are available at the Bank's website at https://bandhanbank.com/sebi-circular and at the RTA's website at

For Bandhan Bank Limited Indranil Banerjee

Company Secretary

Place: Kolkata Date: July 24, 2025

epaper.financialexpress.com



